

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 4—फरवरी 10, 2017 (माघ 15, 1938)

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 4—FEBRUARY 10, 2017 (MAGHA 15, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
(बैंकिंग विनियमन विभाग)

मुंबई—400001, दिनांक 8 नवम्बर 2016

बैंवि.पीएसबीडी. सं. 5201/16.02.001/2016-17—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को शामिल करने का निदेश देता है: -

कैपिटल स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड
मिडास कॉर्पोरेट पार्क
37, जी. टी. मार्ग
जालंधर-144 001

सुदर्शन सेन
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 23 दिसम्बर 2016

बैंवि.पीएसबीडी. सं. 7144/16.02.002/2016-17—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को शामिल करने का निदेश देता है:-

इन्विटास स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड
4 मंजिल, द्वितीय चरण, स्पेसर प्लाजा
संख्या 769, अन्ना सलाई
चेन्नई-600 002

सुदर्शन सेन
कार्यपालक निदेशक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
आंचलिक कार्यालय, कर्नाटक व गोवा

बेंगलूर-560013, दिनांक 15 जून 2016

आपके पत्र सं. सी-II/10(1)केएन/वोल.कवरेज/6491 के संदर्भ में—जब कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि निम्न स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता एवं अधिकतम कर्मचारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध 1952(1952 का 19) के उपबंधों को उनके विभिन्न स्थापनाओं को विशेषतः नाम से लागू किए जाने हेतु सहमत हुए हैं :-

क्रम सं	कोड संख्या	स्थापना का नाम	व्याप्ति एवं सहमति की तिथि
क्षे. का. बेंगलूर			
1	KN/1074829	मे/स जगूल पाउल सालदानहा	01.01.2015
2	KN/1330779	मे/स होटल न्यू स्वागत	01.06.2015
3	KN/1336139	मे/स बी. पुंडलीका बालिगा एंड सन्स	01.05.2015
4	KN/1306082	मे/स इंडिया डिजाइन सिस्टमस प्रा. लि.	01.04.2015
5	KN/1365437	मे/स रवि नायक कंस्ट्रक्सन्स	01.07.2015
6	KN/1352652	मे/स कुसी मेडिकल्स सेंटर	17.06.2015
7	KN/1306258	मे/स बेलावडी प्राईमरी अगरिकलचरल सोसाईटी लि.	30.03.2015
8	KN/1269720	मे/स मलिपटना प्राईमरी अगरिकलचरल सोसाईटी लि.	23.03.2015
9	KN/1349708	मे/स किस्नामूर्ती, पुजा ट्रान्सपोर्ट	23.07.2015
10	KN/1372664	मे/स बसवनील्ली महिलाआश्रम	01.06.2015
11	KN/1338112	मे/स अरकालगुड तालुक अग्रिकल्चर प्रोड्यूसर को ओपरेटिव मार्केटिंग सोसाईटी	01.06.2015
12	BG/BNG/44364	मे/स बैंगलोर युनिवर्सिटी इमपलाईज हाउस बिलडिंग कोपरेटिव सोसाईटी लि.	01.09.2010
13	KN/1048364	मे/स केनेडियन सेक्युरिटी सर्विसेस	31.10.2014
14	KN/1015356	मे/स ईमीट कॉर्पोरेशन	01.08.2014
15	KN/1304631	मे/स फोनिक्स क्लियरिंग एंड फारवाडिंग प्रा. लि.	01.04.2015

क्रम सं.	कोड संख्या	स्थापना का नाम	व्याप्ति एवं सहमति की तिथि
16	KN/38743	मे./स कन्नयना मिल्क प्रोड्यूसर्स प्रा. लि.	01.10.2008
17	KN/1074886	मे./स एंटरलर फासिसेज प्रा. लि.	01.01.2015
18	KN/58457	मे./स एस जे एस असोसिएट्स	01.12.2013
19	KN/1387420	मे./स गंगाधरा मारनाहल्ली मस्तीगौडा	03.10.2015
उप क्षेत्र का. चिकमंगलूर			
20	KN/1138998	हासन नगर विवोधदेश सहकारा संघ नियामिता	01.03.2015
उप क्षेत्र का. मैसूर रोड			
21	KN/49639	मे./स गंगा परमेस्वरी मिनुगारा क्रेडीट कोपरेटिव सोसाईटी, मदूर	01.04.2012
उप क्षेत्र का. के. आर. पुरम			
22	PY/KRP/1276240	मे./स श्री सन्मुगा चिटस प्रा. लि.	07.03.2015
23	PY/KRP/1276292	मे./स आर के एन चिटस व इनवेस्टमेंट प्रा. लि.	07.03.2015
24	PY/KRP/52048	मे./स रौलस राउसी ऑपरेसन्स इंडिया प्रा. लि.	01.11.2009
उप क्षेत्र का. बोम्मसंन्द्रा			
25	PY/BOM/1107596	मे./स स्ट्राईडस हेल्थकेयर प्रा. लि.	01.02.2015
26	PY/BOM/1366934	मे./स श्री राधाक्रिस्ना भेज	24.08.2015
27	PY/BOM/1372008	मे./स ई ई स्कावयर मिडिया व मार्केटिंग प्रा. लि.	01.08.2015
28	PY/BOM/1003063	मे./स साउथ इलेक्ट्रॉनिक्स	17.07.2014
29	PY/BOM/1190437	मे./स फिलिपकावन इंटिग्रेटेड सोलुसन्स	01.04.2015
30	PY/BOM/1354850	मे./स समरुद्धी सपलाई चैन व लोजिस्टिक्स	01.03.2015
31	PY/BOM/1359031	मे./स एलपिस आई टी सोलुसन्स प्रा. लि.	11.08.2015
32	PY/BOM/1369530	मे./स ईनसेन्डो सेफटी सोलुसन्स लि.	01.09.2015
33	PY/BOM/1349049	मे./स ईन्सपर एनर्जी सोलुसन्स प्रा. लि.	01.07.2015
34	PY/BOM/1397313	मे./स प्रिसन इन्जीनियरिंग वर्क	12.11.2015
उप क्षेत्र का. हुब्ली			
35	GB/HBL/1313507	मे./स श्री विराचार्या माईनोरिटिज सोहार्द मल्टीपर्सनल सहकारी संघ, बेडिकेहाल	01.04.2015

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत उल्लिखित स्थापनाओं को प्रत्येक स्थापना के सामने दर्शाए तिथि से लागू करते हैं।

वी विजय कुमार
अपर कें. भ. नि. आयुक्त
कर्नाटक व गोवा क्षेत्र, बेंगलूर
कृते केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA
(DEPARTMENT OF BANKING REGULATION)

Mumbai-400001, the 8th November 2016

DBR.PSBD.No.5201/16.02.001/2016-17—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:-

Capital Small Finance Bank Limited
Midas Corporate Park
37, G.T. Road,
Jalandhar -144 001

SUDARSHAN SEN
Executive Director

The 23rd December 2016

DBR.PSBD.No.7144/16.02.002/2016-17—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:-

Equitas Small Finance Bank Limited
4th Floor, Phase II, Spencer Plaza
No. 769, Anna Salai,
Chennai- 600 002

SUDARSHAN SEN
Executive Director

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(OFFICE OF THE ADDL. CENTRAL PF COMMISSIONER)

Bangalore-560013, the 15 th June 2016

With Reference to letter No. C-II/10(1)/KN/Vol.Cov./6491—WHEREAS it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions, Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :-

Sl. No.	Code No.	Name of the establishment	Date of coverage & Consent
Regional Office, Bangalore			
1.	KN/1074829	M/s Jugul Paul Saldanha	01.01.2015
2.	KN/1330779	M/s Hotel New Swagath	01.06.2015
3.	KN/1336139	M/s B. Pundalika Baliga & Sons	01.05.2015
4.	KN/1306082	M/s Indea Design Systems Pvt Ltd	01.04.2015
5.	KN/1365437	M/s Ravi Nayak Constructions	01.07.2015
6.	KN/1352652	M/s Kushi Medical Centre	17.06.2015
7.	KN/1306258	M/s Belavadi Primary Agricultural Credit Co-operative Society Ltd	30.03.2015
8.	KN/1269720	M/s Mallipattana Primary Agricultural Socoeity Ltd	23.03.2015

Sl. No.	Code No.	Name of the establishment	Date of coverage & Consent
9.	KN/1349708	M/s Krishna Murthy, Pooja Transport	23.07.2015
10.	KN/1372664	M/s Basavanahally Mahilashrama	01.06.2015
11.	KN/1338112	M/s Arakalagud Taluk Agricultural Producers Co-operative Marketing Society	01.06.2015
12.	BG/BNG/44364	M/s Bangalore University Employees House Building Corporation Society Ltd	01.09.2010
13.	KN/1048364	M/s Canadian Security Services	31.10.2014
14.	KN/1015356	M/s Emit Corporation	01.08.2014
15.	KN/1304631	M/s Phoenix Clearing and Forwarding Pvt Ltd	01.04.2015
16.	KN/38743	M/s Kanyana Milk Producers Coop Society	01.10.2008
17.	KN/1074886	M/s Antler Fragrances Pvt Ltd	01.01.2015
18.	KN/58457	M/s SJS Associates	01.12.2013
19.	KN/1387420	M/s Gangadhara Maranahalli Masthigowda	03.10.2015
Sub Regional Office, Chickmagalur			
20.	KN/1138998	M/s Hassan Nagara Vividdhodesh Sahakara Sangha Niyamitha	01.03.2015
Sub Regional Office, Mysore			
21.	KN/49639	M/s Ganga Parameshwari Meenugarara Credit Co-operative Society, Maddur	01.04.2012
Sub Regional Office, K R Puram			
22.	PY/KRP/1276240	M/s Shri Shanmuga Chits Pvt Ltd	07.03.2015
23.	PY/KRP/1276292	M/s RKN Chits & Investments Pvt Ltd	07.03.2015
24.	PY/KRP/52048	M/s Rolls-Royce Operations (Ind) Pvt Ltd	01.11.2009
Sub Regional Office, Bommasandra			
25.	PY/BOM/1107596	M/s Strides Healthcare Pvt Ltd	01.02.2015
26.	PY/BOM/1366934	M/s Sri Radhakrishna Veg	24.08.2015
27.	PY/BOM/1372008	M/s EE Square Media & Marketing Pvt Ltd	01.08.2015
28.	PY/BOM/1003063	M/s Southern Elevators	17.07.2014
29.	PY/BOM/1190437	M/s Flipcarbon Integrated Solutions	01.04.2015

Sl. No.	Code No.	Name of the establishment	Date of coverage & Consent
30.	PY/BOM/1354850	M/s Samrddhi Supply Chain & Logistics	01.03.2015
31.	PY/BOM/1359031	M/s Elpis IT Solutions Pvt Ltd	11.08.2015
32.	PY/BOM/1369530	M/s Incendo Safety Solutions Ltd	01.09.2015
33.	PY/BOM/1349049	M/s Enspar energy Solutions (Pvt) Ltd	01.07.2015
34.	PY/BOM/1397313	M/s Precision Engineering Works	12.11.2015
Sub Regional Office, Hubli			
35.	GB/HBL/1313507	M/s Shri Veeracharya Minorities Souhard Multipurpose Sahakari Sangh, Bedkihal	01.04.2015

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of the Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

V VIJAYA KUMAR
 ADDITIONAL CENTRAL PF COMMISSIONER-I
 KARNATAKA AND GOA STATES
for Central Provident Fund Commissioner

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
 अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
 UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
 FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

DoPGIPF—[PART III—SEC.4]

LAZAR
 SAGAYA
 RAJ

Digitally signed
 by LAZAR
 SAGAYA RAJ
 Date: 2017.02.04
 12:22:04 +05'30'